



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 22—मई 28, 2004 (ज्येष्ठ 1, 1926)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22—MAY 28, 2004 (JYAISTHA 1, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुम्बई-400 005, दिनांक 30 अप्रैल 2004

संदर्भ संविधि. सं. आइबीएस.1576/23.13.025/2003-04--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची से निम्नलिखित को हटा दिया जाए :

“क्रेडिट लियोनेज”

उपाधीक्षक
कार्यालयक निदेशक

संदर्भ संविधि. सं. आइबीएस.1576/23.13.025/2003-04--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि 1 मई 2004 से उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाए :

“क्रेडिट एप्रोप्रियल इंडेक्स” शब्दों के स्थान पर “कोरपोरेट बैंक” शब्द होंगे।

उपाधीक्षक
कार्यालयक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई-400021, दिनांक 7 मई 2004

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 49वीं वार्षिक महासभा नेहरू सेन्टर आडिटोरियम, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुम्बई-400018 (महाराष्ट्र) शनिवार, दिनांक 09 जुलाई 2004 को अपराह्न 3.30 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु होगी :--

31 मार्च 2004 तक की केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का पठन करना

अरुण कुमार पुरवार
अध्यक्ष

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

दिनांक : 16 मार्च, 2004

भारतीय स्टेट बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा कर्मचारियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

इन विनियमों को ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में :-

(क) विनियम 2 के उप-विनियम (घ) के खंड (ख) में उप खंड (iii) के बाद निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्

(ग) 100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1918 सूचकांक संख्या तक परिकल्पित महंगाई भत्ता।

(ख) विनियम 41 में, उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(6) कोई आवेदक जो अधिवार्षिक पेंशन अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा अशक्त पेंशन अथवा अनुकम्पा भत्ता के लिए प्राधिकृत है, इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के एक हिस्से का संराशीकरण करवाने का हकदार होगा।

बशर्ते कि 1.7.2003 को और इस तारीख से, यदि एक आवेदक जिसके मामले में पेंशन का संराशीकरण मूल्य उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन अथवा संराशीकरण पूरा होने की तारीख से देय हो गया हो, संराशीकरण के कारण पेंशन की राशि में कमी इसके आरंभ होने से शुरू हो जाएगी। तथापि, जहां पेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख के एक माह के अंदर अथवा संराशीकरण पूरा होने की तारीख के बाद पहले माह के अंदर नहीं किया जाता, जैसा भी मामला हो, मासिक पेंशन तथा संराशीकृत पेंशन के अंतर का भुगतान, सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख अथवा संराशीकरण पूरा होने की तारीख से, जैसा भी मामला हो और पेंशन की संराशीकृत राशि का भुगतान किए जाने की तारीख की पूर्ववर्ती तारीख तक की अवधि के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी : मूल विनियम 29.09.1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद के संशोधन निम्नानुसार गजट में प्रकाशित किए थे :-

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	दिनांक
1.	3939	18.05.2002

रस.सी. गुप्ता
(रस.सी. गुप्ता)
महाप्रबन्धक (कार्मिक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2004

संख्या : यू-16/53/2003-चिकित्सा-2(गुजरात) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25.4.1951 की बैठक में पारित किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा सूरत केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डॉ. डी.आई. चौहान की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूँ।

डॉ. (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 23 अप्रैल 2004

संख्या : यू-16/53/2003-पंजाब/चि.शा.2 : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. एस.के.ढल, रेडियोलॉजिस्ट को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 22.4.2004 से 30.9.2004 या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त(उत्तरी जोन), दिल्ली द्वारा निर्धारित क्षेत्र मॉडल अस्पताल, लुधियाना के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 27 अप्रैल 2004

सं. एन-15/13/13/5/2002-बी. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :

“जिला--मुजफ्फर नगर के तहसील जानसाठ एवं परगना खतौली के अन्तर्गत राजस्व ग्राम--बेगराजपुर, खानपुर, मुनक्कर कला/खुर्द, फहीमपुर कला/खुर्द, हुसैनपुर बोपाइय एवं पसगना जौली जानसाठ तथा भोकर हेड़ी के राजस्व ग्राम--भंडू एवं कसौली।”

आर.सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110 066, दिनांक

सं. के.भ.नि.आ. 1(4)/2097/2003/केएन--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं :--

क्रम सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	केएन/एचबीएल/ 27314	मै० वी. एस. एस. बैंक	01.04.03	08.01.03
2.	केएन/25682	मै० लॉर्ड अनाप्पा इन्टरप्राइसिस	14.11.02	14.11.02
3.	केएन/25899	मै० जी. जे. एंड क०	01.04.03	03.02.03
4.	केएन/25913	मै० गुनाईटिड मोटर्स एंड हेवी इक्विपमेन्ट प्रा. लि०	01.04.03	01.04.03
5.	केएन/एचबीएल/ 27307	मै० वी. एस. एस. बैंक	01.04.03	01.04.03
6.	केएन/27224	मै० वाभावाल्मी इन्टरप्राइसिस प्रा. लि०	06.06.02	03.06.02
7.	केएन/26772	मै० कृषि ग्लोबल इन्जिनियरिंग एंड	20.10.03	20.10.03
8.	केएन/25962	मै० इन्स्ट्रुमेंट इन्जिनियरिंग प्रा. लि०	12.07.03	12.07.03
9.	केएन/एचबीएल/ 27338	मै० शिवा क्रेडिट को.ओ. सोसाइटी लि०	01.06.03	14.05.03
10.	केएन/20992	मै० लक्ष्मीदास जवेलर्स	01.09.03	30.08.03
11.	केएन/एचबीएल/ 27384	मै० अभयराम कश्टुमर रिलेशन सेन्टर	01.10.03	17.09.03
12.	केएन/20638	मै० लक्ष्मी इन्टरप्राइसिस	01.02.02	01.02.02
13.	केएन/29552	मै० स्टार इनफोरमेसन	20.10.03	20.10.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

सं. के.भ.नि.आ. 1(4)/2095/2003/केएन--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं :--

क्रम सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	केएन/29535	मै० मोनार इन्डस्ट्रीज	13.10.03	13.10.03
2.	केएन/26038	मै० तिकमार्क	01.09.03	01.09.03
3.	केएन/25697	मै० इनफोला सोलुसन्स प्रा. लि.	01.12.02	01.12.02
4.	केएन/25598	मै० वालटर पंड वाटर इन्टरनेशनल	05.07.02	05.07.02
5.	केएन/25740	मै० हावल हेदरायलीस प्रा. लि.	23.12.02	23.12.02
6.	केएन/29522	मै० प्रसन्टेजस इन्डिया प्रा. लि०	18.08.03	18.08.03
7.	केएन/25910	मै० इन्ड एयर कोन	01.06.03	01.06.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

सं. के.भ.नि.आ. 1(4)/2098/2004/एमएच--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं :--

क्रम सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	एमएच/46632	मै० फ्रेट लिंकस	01.05.03	01.04.03
2.	एमएच/62870	मै० माध्यम्री नागरी सहकारी पत सस्था	01.10.99	01.10.99
3.	एमएच/63200	मै० भारत सिग्योटी सर्विस	01.06.01	01.06.01
4.	एमएच/105200	मै० एसोसिएटिड इन्जिनियर्स	17.03.03	17.03.03
5.	एमएच/105243	मै० वधानकटैस इन्जिनियरिंग्स	02.09.03	02.09.03
6.	एमएच/52198	मै० एक्स सर्विसमैन सेल्फ इम्प्लाइड	09.10.03	09.10.03
7.		सर्विस को०-ओ० सोसाईटी		
7.	एमएच/46055	मै० अमूल ओटोमेटिक प्रा० लि०	03.05.02	03.05.02
8.	एमएच/105247	मै० चैतन्या रोपस लि०	16.09.03	16.09.03
9.	एमएच/46832	मै० काबरा ग्लोबल	01.10.03	01.10.03
10.	एमएच/46769	मै० एसएसएस लोजिस्टिक्स	01.08.03	01.08.03
11.	एमएच/81289	मै० श्री बालाजी प्रा० टिचरस को०.ओ० सोसाईटी	03.01.03	03.01.03

12.	एमएच/एनएसके/ 52305	मै0 ओवीएसी सुविद्येयर सर्विस मर्त्सि पा०लि०	30.12.03	30.12.03
13.	एमएच/46162	मै0 श्री सिद्धी विनायक केटर्स	25.02.03	25.07.03
14.	एमएच/46631	मै0 सिटी स्टार किलीरिंग एंड फारवर्डिंग	01.05.03	30.04.03
15.	एमएच/एबी/ 81327	मै0 दा ओरगांबाद डिस्टो इन्डस्टियल एंड अरबन को. बेक लि.	01.07.03	01.07.03
16.	एमएच/45951	मै0इन्टरनेट पेपर नेट्स कोम इन्डिया लि०	23.01.02	23.01.02
17.	एमएच/एबी/ 81355	मै0 प्रतिमा सिक्वोर्टी एंड लेबर सर्विस	21.08.03	21.08.03
18.	एमएच/एबी/ 81384	मै0 सचिन सिक्वोर्टी एंड लेबर सप्लायरस	11.07.03	11.07.03
19.	एमएच/एबी/ 81410	मै0 प्रफेक्ट बाय सिक्वोर्टीज एंड लेबर सप्लायरस सर्विस	08.12.03	08.12.03
20.	एमएच/एबी/ 81344	मै0 एस. के. घाल लेबर सप्लायरस	04.08.03	04.08.03
21.	एमएच/62745	मै0 बलारपुर कोलारी इम्पलाईज को०ओ०. सोसाईटी लि०	01.01.99	01.01.99
22.	एमएच/एबी/ 81362	मै0 भारत टेस्ट कन्ट्रोल	16.09.03	16.09.03
23.	एमएच/एन एसके/ 52343	मै0 गुरु कृपा रेफ्रिजेशन	01.02.04	23.01.04
24.	एमएच/45811	मै0 श्रीनगर फिल्म प्रा०लि०	08.11.01	08.11.01
25.	एमएच/केपी/ 101045	मै0 बुद्धागार्ड महिला नागरी सहकारी पत संस्था	11.04.02	11.04.02
26.	एमएच/115357	मै0 सार्देन फ्रेन सर्विस	19.05.03	19.05.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

दिनांक 26 अप्रैल 2004

सं. को.भ.नि.आ. 1(4)/2093/2004/केआर/5166--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञप्त प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं :--

क्रम सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	केआर/16766	मे० एम. के. धी मार्केटिंग नेट	01.06.03	23.05.03
2.	केआर/केके/17815	मे० आईपीसी-इंग्लिश स्कूल	01.09.03	01.09.03
3.	केआर/केएनआर/18221	मे० पोलो लेब एण्ड एक्सरेज	01.11.03	01.11.03
4.	केआर/केसी/19237	मे० हाबा पावर डेक्स प्रो. लि.	01.02.00	01.02.00
5.	केआर/19265	मे० केरल स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज एसो.	01.04.00	01.04.00
6.	केआर/19318	मे० वाइलडैक सोल्यूशंस प्रो. लि.	01.04.00	01.04.00
7.	केआर/केसी/19338	मे० एमलम एल्युमिनियम एसोसिएट्स	01.04.00	24.03.00
8.	केआर/केसी/19340	मे० लेस एण्ड फ्रेम्स ओप्टिकल्स	11.01.01	11.01.01
9.	केआर/19440	मे० नदन्नाद इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०	01.06.01	01.06.01
10.	केआर/19464	मे० महाराज कॉर्टीनेटल	01.09.01	01.09.01
11.	केआर/केसी/19582	मे० आईडियल डाटाकोम नेटवर्क एण्ड इलेक्ट्रिकल सोल्यूशंस प्रा० लि०	10.07.02	02.07.02
12.	केआर/केसी/19644	मे० अलापट कन्स्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स इन्डिया प्रा० लि०	01.01.03	01.01.03
13.	केआर/19734	मे० इन्डियन ओरगेनिक सर्वि. एजेंसी	02.06.03	02.06.03
14.	केआर/19738	मे० मेगा मोटर्स	08.07.03	08.07.03
15.	केआर/19766	मे० ट्रेवनकोर अमोनिया प्रा० लि०	01.08.03	25.07.03
16.	केआर/केसी/19775	मे० एफ. एम. ट्रान्सपोर्टर्स	01.09.03	28.08.03
17.	केआर/19782	मे० मिलन क्यूरीज प्रा० लि०	12.09.03	12.09.03
18.	केआर/16814	मे० अमीता एन्टरप्राइजिज प्रा० लि०	25.10.03	25.10.03
19.	केआर/केके/17790	मे० के. टी. एस कम्पनी	01.08.03	01.08.03
20.	केआर/19834	मे० धाटिल ग्रेनाइट्स	01.12.03	22.10.03
21.	केआर/16168	मे० वालिया वीदानत स्पेलिट्स एण्ड वीनर्स फेक्ट्री	01.11.97	31.10.97
22.	केआर/16310	मे० मेफ क्यूरीटी सर्विज	01.08.98	10.07.98

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सु.)

सं. के.भ.नि.आ. 1(4)/2094/2004/टीएन/5166--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं :--

क्रम सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	टीएन/सेलम/34695	मे० तनेजा एरोस्पेस एण्ड एवीएशन लि.	30.10.95	30.10.95
2.	टीएन/टीआई/37781	मे० पुडुकोटई एगो इन्जीनियरिंग एण्ड सर्विस कोओपरेटिव सेन्टर	9.1.97	9.1.97
3.	टीएन/42930	मे० एमपी 6 एण्डीपट्टी एगो इन्जी० एण्ड सर्विस को.ओप.सेन्टर लि०	1.8.03	1.8.03
4.	टीएन/43904	मे० त्रिची वार्यस प्रा० लि०	1.7.02	7.6.02
5.	टीएन/सेलम/47430	मे० एन.एस.अजमल	5.4.02	5.4.02
6.	टीएन/टीआई/55130	मे० चेन्नबागारमनपुथुर मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ओप.सोसाईटी	3.7.03	3.7.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया

(संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित)

नई दिल्ली : दिनांक 12.05.2004

(चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स)

संख्या : 1-सी०ए०(7)/75/2004 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग 2 के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत का राजपत्र, भाग 4, खण्ड 3, तारीख 25 मार्च, 1995 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1-सी०ए०(7)/29/95 तारीख 1 मार्च, 1995 को अतिष्ठित/अधिकांत करते हुए, दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, एतद् द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि यदि इन्स्टीट्यूट को कोई व्यवसायरत् सदस्य, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट की ऐसी फर्म जिसमें (क) 4 या उससे अधिक भागीदार किन्तु 8 से कम भागीदार सम्मिलित हैं और उनमें से कम से कम एक भागीदार पांच वर्ष या अधिक के लिए व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र धारण किए हुए है; अथवा (ख) 8 या अधिक भागीदार सम्मिलित हैं और उनमें से कम से कम एक भागीदार पांच वर्ष या अधिक के लिए व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र धारण किए हुए हैं; की ओर से, जिसमें वह एक सदस्य है, उस रकम से कम रकम का, जो यहां इसके नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, कोई लेखापरीक्षा कार्य स्वीकार करता है या निष्पादित करता है जिसमें ऐसे कार्य के लिए (खर्च/व्यय, यदि कोई है, की प्रतिपूर्ति को अपवर्जित करते हुए) लेखापरीक्षा फीस की प्राप्ति सम्मिलित है, तो वह वृत्तिक/व्यावसायिक अवचार का दोषी समझा जाएगा :-

		4 या अधिक भागीदार किन्तु 8 से कम भागीदारों वाली व्यवसायरत् फर्म	8 या अधिक भागीदारों वाली व्यवसायरत् फर्म
(i)	2 मिलियन और अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में	5000/- रुपये प्रति वर्ष	9000/- रुपये प्रति वर्ष

(ii)	2 मिलियन से कम की जनसंख्या वाले नगरों/शहरों में	3000/- रुपये प्रति वर्ष	6000/- रुपये प्रति वर्ष
------	---	-------------------------	-------------------------

परन्तु यह कि ऐसा निर्बन्धन निम्नलिखित की बावत् लागू नहीं होगा :-

- (i) पूर्त/धर्मार्थ संस्था, क्लब, भविष्य निधि, आदि के लेखाओं की लेखापरीक्षा, जहाँ नियुक्ति मानदेय अर्थात् बिना किसी फीस के है;
- (ii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों की शाखाओं की विधिक/कानूनी लेखापरीक्षा;
- (iii) नवीनतः गठित संस्थाओं की उनका कामकाज प्रारम्भ होने की तारीख से दो लेखावर्षों से संबंधित लेखापरीक्षा; तथा
- (iv) विधिक/कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा किया जाने वाला आयकर अधिनियम के अधीन प्रमाणन या लेखापरीक्षा अथवा अन्य अधिप्रमाणन कार्य।

यह 01.04.2004 या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली लेखा अवधि से संबंधित सभी लेखापरीक्षाओं के लिए लागू है।

स्पष्टीकरण :-

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, पद विधिक/कानूनी लेखापरीक्षक से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है केन्द्रीय/राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अधीन नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट और साथ ही किसी करार के अधिन नियुक्त कोई लेखापरीक्षक।

परिषद् ने यह स्पष्ट किया है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए विधिक/कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा की गई/निष्पादित भविष्य निधि न्यास, उपदान (ग्रेच्यूटी) निधि आदि की लेखापरीक्षा को पृथक् और सुभिन्न लेखापरीक्षा माना जाएगा ताकि उपरोक्त निर्बन्धन उसे लागू हो सके।

(डा० अशोक हल्दिया)
सचिव

**RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT**

Mumbai-400 005, the 30th April 2004

Ref. DBOD No. IBS.1575/23.13.025/2003-04.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :—

“Credit Lyonnais”.

USHA THORAT
Executive Director

Ref. DBOD No. IBS.1576/23.13.025/2003-04.—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made with effect from May 01, 2004 in the Second Schedule to the said Act namely :—

For the words “CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ” the words “CALYON BANK” shall be substituted.

USHA THORAT
Executive Director

**STATE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE**

Mumbai-400 021, the 7th May 2004

NOTICE

The 49th Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of India will be held at Nehru Centre Auditorium, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018 (Maharashtra) on Friday, the 9th July, 2004 at 3.3- P.M. for transacting the following business :—

“to receive the Central Board’s Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st March, 2004 and the Auditors’ Report on the Balance Sheet and Accounts.”

A. K. PURWAR
Chairman

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
HEAD OFFICE, NEW DELHI

DATED : THE 16TH APRIL, 2004

No. 3941 – In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2004
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension Regulations, 1995,

(a) In clause (b) to sub-regulation (s) of regulation 2, after sub clause (iii) the following sub clause shall be inserted, namely :-

“(iv) dearness allowance calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for industrial workers in the series 1960=100.”

- (b) In regulation 41, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

“(6) An applicant who is authorised a superannuation pension or voluntary retirement pension or premature retirement pension or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations.

Provided that on and from 01.07.2003, in case of an applicant in whose case, the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement or from the date from which the commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be, the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute, as the case may be, and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid”

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.09.1995 and subsequent amendments were published in the Gazette as under:-

Sl. No.	Notification No.	Date
1.	3939	18.05.2002

S. C. GUPTA
General Manager (Per.)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 12th April 2004

No. U-16/53/2003/Med.II(Guj.).—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under the regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. D. I. Chauhan, PTMR to function as Medical Authority for Surat centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date he resume charges or till a full time Medical referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (NWZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

The 23rd April 2004

No.U-16/53/03/Pb/Med.II :- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize DR.S.K.Dhall, Radiologist to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 22.4.2004 to 30.9.2004 or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Model Hospital Ludhiana or allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (NZ) Delhi for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

The 27th April 2004

No. N-15/13/13/5/2002-P&D.— : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely

"Areas comprising the Revenue villages – Vegrajpur, Khanpur, Munnawar Kalan/Khurd, Fahimpur Kalan/Khurd, Husainpur Bopad up under Tehsil and Pargana Jansath and Khatauli and also in the revenue villages – Bhandoor and Kasauli of Pargana Jolly Jansath and Bhoker Hedi of same Tehsil and District Muzaffar Nagar."

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(HEAD OFFICE)**

New Delhi-66, the 2004

C.P.F.C. No. 1(4)/2097/2003/KN.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1	KN/HBL/27314	M/s. V.S.S. Bank	01.04.2003	08.01.2003
2	KN/25682	M/s. Lord Ayappa Enterprises	14.11.2002	14.11.2002
3	KN/25899	M/s. G.J. & Co.	01.04.2003	03.02.2003
4	KN/25913	M/s. United Motors & Heavy Equipment Pvt. Ltd.	01.04.2003	01.04.2003
5	KN/HBL/27307	M/s. V.S.S. Bank	01.04.2003	09.01.2003
6	KN/27224	M/s. Vaibavalaxmi Enterprises (P) Ltd	01.06.2002	03.06.2002
7	KN/26072	M/s. Krishi Global Engineers & Consultants	20.10.2003	20.10.2003
8	KN/25962	M/s. Stednant Engineers Pvt. Ltd.	12.07.2003	12.07.2003
9	KN/HBL/27338	M/s. Shiva Credit Co-op Society Ltd.	01.06.2003	14.05.2003
10	KN/20992	M/s. Laxmidas Jewellers	01.09.2003	30.08.2003
11	KN/HBL/27384	M/s. Abhiram Customer Relation Centre	01.10.2003	17.09.2003
12	KN/20638	M/s. Laxmi Enterprises	01.02.2002	01.02.2002
13	KN/29552	M/s. Steer Information	20.10.2003	20.10.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner-I (C)

C.P.F.C. No. 1(4)/2095/2003/KN.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1	KN/29535	M/s. Minar Industries	13.10.2003	13.10.2003
2	KN/26038	M/s. Tekmark	01.09.2003	01.09.2003
3	KN/25697	M/s. Infola Solutions (P) Ltd	01.12.2002	01.12.2002
4	KN/25598	M/s. Walther & Wather International	05.07.2002	05.07.2002
5	KN/25740	M/s. Hawl Hydraulics Pvt Ltd	23.12.2003	23.12.2003
6	KN/29522	M/s. Prescientis India (P) Ltd.	18.08.2003	18.08.2003
7	KN/25910	M/s. Ind Air Con.	01.06.2003	01.06.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner-I (C)

C.P.F.C. No. 1(4)/2098/2004/MH.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1	MH/46632	M/s Freight Links	01.05.2003	01.04.2003
2	MH/62870	M/s. Bhagyashri Nagri Sahakari Pat Sanstha	01.10.1999	01.10.1999
3	MH/63200	M/s. Bharat Security Service	01.06.2001	01.06.2001
4	MH/105200	M/s. Associated Engineers	17.03.2003	17.03.2003
5	MH/105243	M/s. Vyankatesh Engineering Work	02.09.2003	02.09.2003
6	MH/52198	M/s. Ex-Servicemen Self Employed Service Co-op Society	09.10.2003	09.10.2003
7	MH/46055	M/s. Amal Automotive Pvt Ltd.	03.05.2002	03.05.2002
8	MH/105247	M/s. Chaitanya Ropes Ltd.	16.09.2003	16.09.2003
9	MH/46832	M/s. Kabra Global	01.10.2003	01.10.200
10	MH/46769	M/s. SMS Logistics	01.08.2003	01.08.2003
11	MH/81289	M/s. Shri Balaji Pvt. Teacher's Co-op Society	03.01.2003	03.01.2003
12	MH/NSK/52305	M/s. OVAC Switchgear Service Pvt. Ltd.	30.12.2003	30.12.2003
13	MH/46162	M/s Shree Siddhivinayak Caterers	25.07.2002	25.07.2002
14	MH/46631	M/s. City Star Clearing and Forwarding	01.05.2003	30.04.2003
15	MH/AB/81327	M/s. The Aurangabad District Industrial & Urban Co-op Bank Ltd	01.07.2003	01.07.2003
16	MH/45951	M/s. Internet Paper Next Com. India Ltd.	23.01.2002	23.01.2002
17	MH/AB/81355	M/s. Pratima Security & Labour Services	21.08.2003	21.08.2003
18	MH/AB/81384	M/s. Sachin Security & Labour Suppliers	11.07.2003	11.07.2003
19	MH/AB/81410	M/s. Perfect Watch Securities & Labour Suppliers Services	08.12.2003	08.12.2003
20	MH/AB/81344	M/s. S.K. Ghal Labour Suppliers	04.08.2003	04.08.2003
21	MH/62745	M/s. Ballarpur Colliery Employees Co-op Society Ltd.	01.01.1999	01.01.1999
22	MH/AB/81362	M/s. Bharat Pest Control	16.09.2003	16.09.2003
23	MH/NSK/52343	M/s. Gurukripa Refrigeration	01.02. 2004	23.01.2004
24	MH/45811	M/s. Shrinagar Films Pvt. Ltd.	08.11.2001	08.11.2001
25	MH/KP/101045	M/s. Bhudargad Mahila Nagari Sahakari Path Sanstha	11.04.2002	11.04.2002
26	MH/115357	M/s. Southern Crane Services	19.05.2003	19.05.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner-I (C)

New Delhi-66, the 26th April 2004

C.P.F.C. No. 1(4) 2093/2004/KR/5166.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1	KR/16766	M/s. M.K.P. Marketing Net	01.06.2003	23.05.2003
2	KR/KK/17815	M/s. I.P.C. English School	01.09.2003	01.09.2003
3	KR/KNR/18221	M/s. Ploy Lab & X-Ray's	01.11.2003	01.11.2003
4	KR/KC/19237	M/s. Saba Power dex (P) Ltd.	01.02.2000	01.02.2000
5	KR/19265	M/s. Kerala State Small Industries Association	01.04.2000	01.04.2000
6	KR/19318	M/s. Wiltech Software Solutions (P) Ltd.	01.04.2000	01.04.2000
7	KR/KC/19338	M/s. Amalgam Aluminum Associates	01.04.2000	24.03.2000
8	KR/KC/19340	M/s. Lens and Frames Opticals	11.01.2001	11.01.2001
9	KR/19440	M/s. Nedungad Investments (P) Ltd.	01.06.2001	01.06.2001
10	KR/19464	M/s. Maharaj Continental Trades Ltd.	01.09.2001	01.09.2001
11	KR/KC/19582	M/s. Ideal Datacom Net Work & Electrical Solution (P) Ltd.	10.07.2002	02.07.2002
12	KR/KC/19644	M/s. Alapatt Consumer Electronics India (P) Ltd.	01.01.2003	01.01.2003
13	KR/19734	M/s. Indian Organic Certification Agency	02.06.2003	02.06.2003
14	KR/19738	M/s. Mega Motors	08.07.2003	08.07.2003
15	KR/19766	M/s. Travancure Ammonia (P) Ltd.	01.08.2003	25.07.2003
16	KR/KC/19775	M/s. F.M. Transports	01.09.2003	28.08.2003
17	KR/19782	M/s. Milan Kuries (P) Ltd.	12.09.2003	12.09.2003
18	KR/16814	M/s. Amrita Enterprises Pvt. Ltd.	25.10.2003	25.10.2003
19	KR/KJ/17790	M/s. K.T.S. Company	01.08.2003	01.08.2003
20	KR/19834	M/s. Thattil Granites	01.12.2003	22.10.2003
21	KR/16168	M/s. Valiyaveedan's Splints and veneers Factory	01.11.1997	31.10.1997
22	KR/16310	M/s. Safe Security Service	01.08.1998	10.07.1998

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner-I (C)

C.P.F.C. No. 1(4)/2094/2004/TN/5166.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1	TN/SL/34695	M/s. Taneja Aerospace and Aviation Ltd.	30.10.1995	30.10.1995
2	TN/TI/37781	M/s. Pudukottai Agro Engineering and Service Co-op Centre	09.01.1997	09.01.1997
3	TN/42930	M/s. M.P.6, Aundipatti Agro Engg. & Service Co-op Centre Ltd.	01.08.2003	01.08.2003
4	TN/43904	M/s. Trichy Wires (P) Ltd.	01.07.2002	07.06.2002
5	TN/SLM/47430	M/s. N.S. Ajmal	05.04.2002	05.04.2002
6	TN/TI/55130	M/s. Chenbagaramanputhoor Milk Producers Co-op Society	03.07.2003	03.07.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner-I (C)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up under an Act of Parliament)

New Delhi-110002, the 12th May 2004

No. 1-CA (7)/75/2004: In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Part II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, and in supersession of Notification No. 1-CA (7)/29/95 dated 1st March, 1995 published in Part III Section 4 of the Gazette of India dated 25th March, 1995, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby specifies that a member of the Institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if he on behalf of the firm of chartered accountants in which he is a partner (a) consisting of 4 or more partners but less than 8 partners with at least one partner holding a certificate of practice for five years or more; or (b) consisting of 8 or more partners with at least one partner holding a certificate of practice for five years or more; accepts or carries out any audit work involving receipt of audit fees (excluding reimbursement of expenses, if any) for such work of an amount less than what is specified hereunder:-

	Practising firm having 4 or more partners but less than 8 partners	Practising firm having 8 or more partners
(i) In cities with population of 2 million and above.	Rs. 5000/- p.a.	Rs. 9000/- p.a.
(ii) In cities/towns having population of less than 2 million.	Rs. 3000/-p.a.	Rs. 6000/- p.a.

Provided that such restriction shall not apply in respect of the following:-

- (i) audit of accounts of charitable institutions, clubs, provident funds, etc. where the appointment is honorary i.e. without any fees;
- (ii) statutory audit of branches of banks including regional rural banks;
- (iii) audit of newly formed concerns relating to two accounting years from the date of commencement of their operations; and
- (iv) certification or audit under Income-tax Act or other attestation work carried out by the Statutory Auditor.

This becomes operative for all audits relating to accounting periods beginning on or after 1.4.2004.

Explanation:

For the purpose of this notification, the expression statutory auditor means and includes a chartered accountant appointed as an auditor under a Central/State or Provincial Act as well as an auditor appointed under any agreement.

The Council has clarified that for the above purpose the audit of Provident Fund Trust, Gratuity Fund etc. carried out by the statutory auditor are to be considered as separate and distinct audit so that the above restrictions are applicable to it.

ASHOK HALDIA
Secy.